



1. टीडीएस 2% उन भुगतानों पर कटौती योग्य हैं जो आयकर कानून 1961 की धारा 10(10डी) के तहत छूट प्राप्त नहीं हैं.
2. *यदि पैन नहीं दिया गया है तो टीडीएस दर 20% होगी.
3. ^टीडीएस दर एनआरआई के लिए रु.1 करोड़ तक के भुगतान हेतु 30.9% और रु.1 करोड़ से अधिक के लिए 33.99% होगी.

PS-43.Ver.05 04-19 HIN

डायरेक्ट क्रेडिट मैनेजेंट

प्रति

एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

शाखा : _____

विषय : एनईएफटी के जरिए पॉलिसी भुगतान की प्राप्ति

मैं पॉलिसी का भुगतान एनईएफटी के जरिए पाने के लिए अपने बैंक खाते का विवरण नीचे दे रहा हूँ.

पॉलिसी क्रमांक	
पॉलिसीधारक का नाम	
बैंक का नाम	
बैंक शाखा का पता	
खाता प्रकार (कृपया उचित जगह पर ☒ चिन्ह लगाएं)	☐ बचत ☐ चालू ☐ #एनआरई
बैंक खाता संख्या	
आईएफएस कोड	
मोबाइल नंबर	
ई-मेल आईडी	

#एनआरई खातों के लिए, भुगतान के डायरेक्ट क्रेडिट के लिए बैंक से पत्र की ज़रूरत होती है.

मैंने तदर्थ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किए हैं (कृपया उचित जगह पर ☒ चिन्ह लगाएं)

- ☐ पूर्व मुद्रित नाम व खाता संख्या से युक्त मूल चेक पन्ना.
- ☐ यदि चेक पर पूर्व मुद्रित नाम नहीं है तो कृपया पूर्व मुद्रित बैंक अकाउंट नंबर, खाता धारक का नाम और आईएफएस कोड दर्शाने वाले पास बुक की स्वसत्यापित प्रति हाल के व्यवहारों की प्रति (1 माह से पुराना नहीं) जमा करें.

मैं सहमत हूँ कि :

- एनआरई खातों के लिए समर्पण की धनराशियों की डायरेक्ट क्रेडिट के लिए बैंक से पत्र की ज़रूरत होती है.
- एसबीआई लाइफ के पास आपके खाते में भूल से किए गए किसी भी भुगतान को रिवर्स करने और आपके खाते में जमा की गई ऐसी किसी अतिरिक्त राशि को वसूलने के लिए ग्रहणाधिकार का प्रयोग करने का अधिकार सुरक्षित है.
- किसी भी कारणवश एनईएफटी के जरिए भुगतान की प्रक्रिया पूरी नहीं की जा सकने पर एसबीआई लाइफ के पास चेक के जरिए राशि अदा करने का अधिकार सुरक्षित है.

“मैं एतद्वारा घोषित करता हूँ कि यहाँ ऊपर दिए गए पॉलिसी विवरण और बैंक खाते के विवरण सत्य और सही हैं तथा मैं एतद्वारा एसबीआईएल को उपरोक्त पॉलिसी के तहत राशियों को ऊपर दिए गए मेरे बैंक खाते में मेरे जोखिम पर जमा करने के लिए प्राधिकृत करता हूँ.”

दिनांक : दि / म / व व व

स्थान : _____

पॉलिसीधारक का हस्ताक्षर